

12. शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता : एसएससी से शुरू करके Educational & Professional Qualifications : Beginning with SSC Onwards

पाठ्यक्रम का नाम Name of the Course	विश्वविद्यालय/ University/ बोर्ड/Board/ संस्थान/Institution	उत्तीर्ण वर्ष Year of passing	अंक विवरण Details of Marks			
			विषय Subjects	अधिकतम अंक Maximum Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	अंक की प्रतिशत पूर्णांकित न करें % of Marks (not to be rounded off)
एसएससी SSC						
एचएससी HSC						

12a. राज्य अग्निशामक प्रशिक्षण केन्द्र से अग्निशामक उपस्कर संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स के विवरण Details of Certificate Course in Fire Fighting Equipments from State Fire Training Centres :

अग्निशामक प्रशिक्षण केन्द्र का नाम Name of the Fire Training Centre	प्रमाण-पत्र जारी तिथि Date of issue of Certificate	टिप्पणी Remarks

12b. भारी वाहन चलाने के लाइसेंस का विवरण : Details of Heave Vehicle Driving License :

विवरण Details	जारी तिथि Date of Issue	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या Driving License No.
लघु वाहन ड्राइविंग लाइसेंस Light Vehicle Driving License		
भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस Heavy Vehicle Driving License		

13. यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दें Indicate the course of study, if any, the applicant is continuing presently

पाठ्यक्रम Course	विश्वविद्यालय University बोर्ड /Board /संस्थान Institution	पूर्ण अवधि Full Time/अंशकालिक Part Time	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of the Course	सत्रों की संख्या No. Of Semester/उत्तीर्ण विषय Subjects Completed	प्राप्तांक Marks Obtained

14. अनुभव (सभी पिछले एवं वर्तमान सेवायोजनों का विवरण) Experience (particulars of all previous & present employment are to be furnished)

नियोजक का नाम एवं पता Name & address of the Employer	कार्य की प्रकृति (यदि कुछ संलग्न आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें) Nature of work (If any enclosures are required please attach separate sheet)							
	धारित पद Post held	क्या केंद्र Whether Central/राज्य सरकार State Govt/साक्षेअPSU/ स्वायत्त निकाय Autonomous Body	अवधि Period		स्थायी या अस्थायी Permanent or temporary	सेवा त्यागने के कारण Reasons for leaving	बंध पत्र यदि हो तो Bond if any	
			से From	तक To			मूल्य Value	वैधता Validity

15. उन संबंधियों के विवरण दें जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संघटक इकाईयों में पहले से ही कार्यरत हैं/Details of relatives employed in Dept. of Atomic Energy or its constituent units:

संबंधी का नाम Name of the Relative	संबंध Relationship	इकाई का नाम जहाँ कार्यरत हैं Unit in which employed	धारित पद Post held

16. घोषणा Declaration:

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार तथ्यात्मक रूप से सही है। मुझे ये भी ज्ञात है कि ऊपर दी गई किसी भी सूचना के गलत होने पर मैं अयोग्य माना जाऊंगा। I hereby declare that the above information are factually correct to the best of my knowledge. I also understand that I will be disqualified if any of the information is found to be wrong.

स्थान Place:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर Signature of the Candidate

दिनांक Date:

अभ्यर्थी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name of the Candidate in block letters